



"एक साझा संसार" (OneShared.World) मानव जाति के बेहतर भविष्य और विश्व की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विविध संस्कृतियों, समुदायों, जातियों, संगठनों, संस्थाओं, हितों, पीढ़ियों और राष्ट्रों में सहयोगी रूप से काम कर रहे हितधारकों का एक व्यापक और समावेशी आंदोलन है।

हम, हमारी साझी मानवता की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को वैश्विक शक्ति संरचना के एक स्तंभ के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जिससे हमारी सबसे महत्वपूर्ण सामूहिक चुनौतियों का सामना करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

आप भी हमारे साथ सम्मिलित होकर परस्पर निर्भरता की शपथ लें।

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि:

1. एक दूरगामी, निवारक और उत्तरदायी आधारभूत संरचना के निर्माण का समर्थन करूँगा जो

हमारे अस्तित्व के संकटों से हमारी रक्षा करेगी;

2. यह सुनिश्चित करूँगा कि हमारे मध्य जो सबसे वंचित हैं, वे उन्हीं अधिकारों को प्राप्त करें जिसका लाभ शक्तिशाली और गणमान्य जन उठाते हैं; हमारी मानवीय समानता का हमारी अनिवार्य विविधता के सन्दर्भ में स्वागत हो; एवं हमारा जीवन समान गरिमा से युक्त हो;
3. हमारी साझी मानवता के संरक्षण हेतु अपने समुदायों, संस्थाओं और राष्ट्रों के माध्यम से और सीधे तौर पर कार्य करूँगा;
4. सभी प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए एक सुरक्षित और स्थायी वैश्विक वातावरण की स्थापना करूँगा;
5. सभी बच्चों के और सभी लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करूँगा जिससे वे समान शिक्षा, स्वास्थ्य, और सुरक्षा के अधिकारी बनें;
6. समस्त संस्कृतियों में संपर्क, सम्मान, सार्थकता और संयोजन के संचार हेतु प्रत्येक स्वरूप में कलात्मक अभिव्यक्ति का समर्थन और प्रोत्साहन करूँगा;
7. आपसी विचार, सम्मान, सहानुभूति और दया के माध्यम से मानवीय सहभागिता का संरक्षण और संवर्धन करूँगा;
8. इन सिद्धांतों की सिद्धि हेतु यथा शक्ति कार्य करूँगा।

इन आकांक्षाओं की सम्यक अभिव्यक्ति हमारे सामूहिक अन्यान्याश्रय के उद्घोष में अभिव्यक्त है जो इस साइट पर कई भाषाओं में उपलब्ध है।

समस्त मानवजाति के एक बेहतर, उज्ज्वल भविष्य की प्रबल आशा के साथ, हम इन सिद्धांतों के प्रति आपको वचनबद्ध होने और हमारे वैश्विक आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। (हमारे मुख पृष्ठ पर साइन इन करें।)

उपरोक्त उद्देश्यों को बढ़ावा देने हेतु हम आपको शीघ्र ही विशिष्ट अभियानों में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करेंगे। इनमें से सर्वप्रथम मानव-कल्याण हेतु हमारी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता की अभिवृद्धि और आने वाले महीनों में दक्षिणी गोलार्द्ध में कोरोना महामारी से संभवतः पीड़ित होने वाली सबसे कमजोर आबादी की सहायता के लिए एक आपातकालीन कार्य योजना की स्थापना है।

इस सन्देश का प्रचार करने और हमारे सामूहिक स्वप्नों को साकार करने के लिए हम आपको प्रोत्साहित करते हैं।

एकजुट मानवता। एक सामूहिक विश्व-व्यवस्था। मज़बूत एक साथ।